



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31082023-248456
CG-DL-E-31082023-248456

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 501]
No. 501]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 31, 2023/भाद्र 9, 1945
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 31, 2023/BHADRA 9, 1945

संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2023

सा.का.नि. 641(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संयुक्त महानिदेशक (पुरातत्व) भर्ती नियम, 2015 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय में संयुक्त महानिदेशक (पुरातत्व) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संयुक्त महानिदेशक (पुरातत्व) भर्ती नियम, 2023 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता तथा इससे संबंधित अन्य मामले उसी तरह होंगे जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
संयुक्त महानिदेशक (पुरातत्व)।	7* (2023) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अनुसूचिवीय।	वेतन स्तर - 13 (123100-215900 रु.)	चयन पद	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है)	प्रोन्नति : वेतन स्तर - 12 (78,800 रुपए - 2,09,200 रुपए) में ऐसे निदेशक (पुरातत्व), जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा पुरातत्व संस्थान, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किया हो। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष;	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

	<p>है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है)</p> <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान या अनुसंधान संस्था के ऐसे अधिकारी :</p> <p>(क) (i) जो मूल संवर्ग / विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं;</p> <p>या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 12 (78800-209200 रु.) में या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो; और</p> <p>(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो, अर्थात् :</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से भारतीय इतिहास में मास्टर डिग्री जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास या मध्ययुगीन भारतीय इतिहास एक विषय के रूप में हो अथवा पुरातत्व विज्ञान या मानव विज्ञान में मास्टर डिग्री जिसमें पाषाण युगीन पुरातत्व विज्ञान एक विषय के रूप में हो अथवा भू-विज्ञान में मास्टर डिग्री जिसमें प्रतिनूतन भू-विज्ञान एक विषय के रूप में हो अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संस्कृत या पाली या अरबी या प्राकृत या तमिल या तेलुगु या मल्यालम या कन्नड या इतिहास या कला में मास्टर डिग्री जिसमें प्राचीन या मध्ययुगीन भारतीय इतिहास एक विषय के रूप में हो।</p> <p>(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थान के अधीन पुरातत्व विज्ञान में सात वर्ष का अनुभव;</p> <p>(iii) (ख) (i) में यथावर्णित उपर्युक्त विषयों में से किसी एक में पीएचडी तथा प्रकाशित अनुसंधान कार्य</p> <p>टिप्पण : यदि किसी अभ्यर्थी के पास मास्टर डिग्री एवं पीएचडी के अलावा पुरातत्व विज्ञान में डिप्लोमा है, तो पांच वर्ष का अनुभव आवश्यक है।</p> <p>टिप्पण 1 : पोषण प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति/आमेलन पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p>	<p>2. सचिव या अपर सचिव, संस्कृति मंत्रालय – सदस्य;</p> <p>3. महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण – सदस्य; और</p> <p>4. अपर महानिदेशक (पुरातत्व), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण-सदस्य ।</p>	
--	---	---	--

	<p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	---	--	--

[फा. सं. जे-11012/6/2022-योजना]

गुरमीत सिंह चावला, अपर महानिदेशक (प्रशासन)

MINISTRY OF CULTURE

(Archaeological Survey of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th August 2023

G.S.R. 641(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Culture, Archaeological Survey of India, Joint Director General (Archaeology) Recruitment Rules, 2015, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Joint Director General (Archaeology) in the Archaeological Survey of India, Ministry of Culture, namely:—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Culture, Archaeological Survey of India, Joint Director General (Archaeology) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in the pay matrix.—The number of the post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualification etc.—The method of recruitment to the post, age-limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation to this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, Other Backward Classes, ex- Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
Joint Director General (Archaeology).	7* (2023) (*subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-13 (Rs. 123100-215900)

Whether selection or non-selection Post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Selection post	Not applicable.	Not applicable.
Whether age and qualifications prescribed for direct recruitment will apply in case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Promotion failing which by deputation including short term contract.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<p>Promotion: Director (Archaeology) in pay level-12 (Rs. 78,800-2,09,200) with five years of regular service in the grade and having successfully undergone two weeks training from the Institute of Archaeology, Archaeological Survey of India. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (Including short term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or Autonomous or Statutory organisation or Public Sector Undertaking or recognised University or Institute or Research Institution: (A)(i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre/department; or (ii) with five years regular service in grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay level-12 (Rs. 78800-209200) or equivalent in the parent cadre or department; and (B) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- (i) Masters degree in Indian History with Ancient Indian History or Medieval Indian History as a subject or Master degree in Archaeology or Anthropology with Stone Age Archaeology or Anthropology as a subject or Masters degree in Geology with Pleistocene Geology as a subject from a recognised University / Institute or Masters degree</p>	<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman; 2. Secretary or Additional Secretary, Ministry of Culture - Member; 3. Director General, Archaeological Survey of India - Member; and 4. Additional Director General (Archaeology), Archaeological Survey of India - Member.</p>	<p>Consultation with the Union Public Service Commission is necessary.</p>

<p>in Sanskrit or Pali or Arabic or Prakrit or Tamil or Telugu or Malayalam or Kanada or History or Art with Ancient or Medieval Indian History as a subject from recognised University or Institute;</p> <p>(ii) seven years experience in Archaeology under the Central Government or State Government or Union territory or Autonomous or Statutory organisation or Public Sector Undertaking or recognised University or Institute of Research institutions;</p> <p>(iii) PhD. in any of the above subjects as mentioned in (b)(i) and should have published research work.</p> <p>Note: If a candidate possesses Diploma in Archaeology in addition of Masters Degree and PhD. then five years experience is necessary.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation / absorption. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration of appointment by promotion.</p> <p>Note 2: Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not exceed five years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
---	--	--

[F. No. J-11012/6/2022-PLANNING]
GURMEET SINGH CHAWLA, Addl. Director General (Admn.)